



## आरआरकेट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर

रजि. नं. AR/IDR/1172 dt. 04.05.1993

दिनांक : 13 अक्टूबर, 2021

### — ≡ सूचना ≡ —

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आरआरकेट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर की 24वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 गुरुवार को आरआरकेट सोसायटी ऑफिस के बाहर निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित की जाएगी :-

1. दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखा विवरण को पढ़ना तथा स्वीकृति, व लाभों के विनियोजन को मंजूरी देना।
2. प्रबंध समिति के सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लाभों का विनियोजन एवं बजट का अनुमोदन करना।
3. प्रबंध समिति की सिफारिशों के अनुसार उपनियमों के प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन करना।  
उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन :-

वर्तमान		प्रस्तावित	
1.	सेवानिवृत्ति हितलाभ राशि : रु. 7001/- बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	1.	सेवानिवृत्ति हितलाभ राशि : रु. 10001/- बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।
2.	प्रगति योजना : अस्थायी रूप से बंद की गई थी।	2.	प्रगति योजना : रु. 1100/- प्रति माह अवधि : 72 माह परिपक्वता राशि : रु. 1,00,000/- (एक लाख) बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।  * प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक 6 प्रगति रख सकता है।



4. संस्था की वर्ष 2021-22 की लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा निम्नलिखित सनदी लेखापाल फर्मों में से किसी एक अथवा विभागीय संपरीक्षक से होना, इसका चयन करना,
  1. अतुल ओमप्रकाश एंड कं. विक्रम टावर्स, सपना संगीता रोड, इन्दौर
  2. हुसैन शब्बीर एंड कं, विक्रम टावर्स, सपना संगीता रोड, इन्दौर
  3. पटेल एंड गुप्ता, 543-44, विक्रम टावर्स, सपना संगीता रोड, इन्दौर
5. अन्य कोई विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।  
सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे वर्चुअल GB में उपस्थित होकर GB को सुचारु रूप से संपादन होने में सहयोग करें।

- कोई भी सदस्य यदि संबंधित जानकारी चाहता है तो उन्हें आमसभा की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व लिखित रूप में संस्था के सचिव को आवेदन देना होगा।
- 24वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ संस्था कार्यालय में दिनांक 23 अक्टूबर 2021 से वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी।
- सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्था कार्यालय में दिए गए अपने पते, हस्ताक्षर तथा उत्तराधिकारी को सत्यापित करें और पूर्ण रूप से भरा हुआ के.वाय.सी. फार्म जमा करें।

हस्ता/-  
(देवीलाल गोदारा)  
सचिव

प्रबंध समिति के लिए तथा उनकी ओर से



**RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY (LIMITED)  
INDORE (M.P.)**

Regd. No. AR/IDR/1172 Dtd. 04.05.1993

Date : 13 October, 2021

**—≡ NOTICE ≡—**

Notice is hereby given that 24th Annual General Body Meeting of RRCAT Employee's Co-operative Credit Society (Ltd.) Indore will be held on 28th October, 2021, Thursday to transact the following business:-

1. To read and adopt annual report and statutory audited statement of accounts for the period 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021.
2. To approve the appropriation of profits and budget for the financial year 2021-22 as recommended by the managing committee.
3. To approve the proposed amendments to the bylaws recommended by the managing committee:-

Existing		Proposed	
1	Retirement Benefit Scheme Amount : Rs. 7001/- Other terms and conditions remain same.	1	Retirement Benefit Scheme Amount : Rs. 10001/- Other terms and conditions remain same.
2.	Pragati Saving Scheme : Temporarily stopped	2.	Pragati Saving Scheme : Rs. 1100/- per month. Tenure : 72 months Maturity Amount : Rs. 1,00,000/- (Rupes one lakh) Other terms and conditions remain same. * Maximum limit per one member is 6 Pragati deposits.



4. To appoint auditors from any of the given three chartered accountants firms or departmental auditors for the financial year 2021-22
  - (i) Atul Omprakash & Co., Vikram Towers, Sapna Sangeeta Road, Indore
  - (ii) Hussain Shabbir & Co., Vikram Towers, Sapna Sangeeta Road, Indore
  - (iii) Patel & Gupta, 543-44, 4th floor, Vikram Towers, Sapna Sangeeta Road, Indore
5. Any other matter that may be brought with the permission of the President.

All members are therefore requested to attend the virtual GB meeting and help in smooth deliberation.

- Any question or information required by a member at the time of the meeting should please be communicated in writing to the Secretary at least 3 days before the date of Annual General Body Meeting.
- 24th Annual report copies are available in the Society Office for the distribution to the members from 23rd October 2021.
- Members are requested to verify their address, signature and nominee given at Society office and submit the duly filled KYC form.

Sd/-  
**(Devilal Godara)**  
Secretary  
For and on behalf of  
Managing Committee



## चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं संस्था की 24वीं वार्षिक आम सभा में प्रबंध समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट लाभ हानि के लेखे जोखे एवं तुलना पत्र सहित आपके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष के दौरान हमारी संस्था की प्रगति उत्साहवर्धक एवं प्रशंसनीय रही है। संस्था की प्रगति रिपोर्ट इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर दी गई है जिसमें आप स्पष्ट देख पाएंगे कि किस तरह संस्था ने वर्ष दर वर्ष प्रगति की है।

### लाभ का विनियोजन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान संस्था को कुल रु. 9320923/- का लाभ हुआ। पिछले वर्ष तक के शेष राशि रु. 41523988/- को जोड़ कर अब तक रु. 50844911/- का लाभ हुआ है। समिति निम्न रूप में विनियोजन की सिफारिश करती है।

संचित निधि राशि रु. 12427897/- का 25% = रु. 3106974/-

शेयर पूँजी रु. 3357300/- का 25% लाभांश = रु. 839325/-

### सभाएँ

(क) वर्चुअल वार्षिक आमसभा : संस्था की 23वीं वार्षिक आमसभा 28 अक्टूबर 2020 को आरआरकेट सोसायटी ऑफिस के बाहर में आयोजित की गई। सभा में कुल 821 सदस्यों ने भाग लिया था जो कि पिछले वर्ष से अधिक सदस्यों की उपस्थिति वाली आमसभा रही।

(ख) प्रबंध समिति की बैठकें : वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति ने 42 साप्ताहिक बैठकें और 11 विशेष/अति आवश्यक बैठक की गई। समिति के सदस्यों ने बैठकों में भाग लेकर अपना सहयोग दिया।

### लाभांश और अंशदान पर ब्याज

वर्ष के दौरान हुए लाभ और वर्तमान संभावनाओं को ध्यान में रखकर 25% अतिरिक्त लाभांश तथा जमा किये गए अंशदान पर 12% ब्याज देने की कार्यकारिणी समिति की सिफारिश करती है।



### सक्रिय सदस्यता

वित्तीय वर्ष में 57 नए सदस्य बने तथा त्याग पत्र देने, सेवानिवृत्त होने एवं मृत्यु होने के कारण 52 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई। 31 मार्च 2021 को संस्था की वर्तमान सदस्यों की संख्या 1391 दर्ज की गई।

### शेयर पूंजी

31 मार्च 2021 तक प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 3357300/- दर्ज की गई है।

### वैधानिक आरक्षित निधि :

31 मार्च 2020 को आरक्षित निधि में रु. 13847103/- की शेष राशि थी। वित्तीय वर्ष के लाभ का विनियोजन से रु. 3106974/- तथा प्रवेश शुल्क के रु. 1450/- जोड़कर 31 मार्च 2021 को इस निधि में उपलब्ध राशि रु. 16955527/-.

### सदस्यों द्वारा जमा धनराशि

धन जमा करने की विभिन्न योजनाओं में सदस्यों ने असीम उत्साह दिखाया है। इसका विवरण निम्नलिखित है :-

1 अप्रैल, 2020 को संतुलन जमा राशि (कुल अंशदान, सावधि जमा, आवर्ती जमा और प्रगति योजना जमा)	रु.	253834080/-
वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	रु.	252352168/-
वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	रु.	204310455/-
31 मार्च 2021 की शेष राशि	रु.	307875793/-

### ऋण :

ऋण लेने में सदस्यों ने उत्साह दिखाया है, उसका विवरण निम्नलिखित है -

1 अप्रैल, 2020 को संतुलन जमा राशि (कुल साधारण ऋण, विशेष ऋण, आपातकालीन ऋण, उपभोक्ता ऋण, कोविड-19 एवं कोविड-2)	रु.	318710843/-
वित्तीय वर्ष के दौरान वितरण की गई राशि	रु.	339395446/-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण वापसी राशि	रु.	276686868/-
31 मार्च 2021 की शेष राशि	रु.	381419421/-



### मृत्यु राहत निधि

रिपोर्ट अवधि के दौरान संस्था की समिति द्वारा संस्था के 01 दिवंगत सदस्य के विधिक नामित सदस्य को रु. 30000/- की राशि मृत्यु राहत निधि के रूप में प्रदान की गई। संस्था दिवंगत सदस्य के परिवारों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

### सदस्य कल्याण निधि

इस निधि के तहत रिपोर्ट अवधि में निम्नलिखित गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

(क) सेवानिवृत्त हितलाभ योजना : जिन सदस्यों ने अपनी सदस्यता के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनकी अधिवर्षिता पर प्रत्येक को रु. 7001/- का नकद उपहार दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 42 सदस्यों को कुल रु. 238042/- का यह उपहार दिया गया है।

(ख) विद्यार्थी सम्मान समारोह : शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 73 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सदस्यों को प्रमाण पत्र एवं नकद इनाम संस्था के कार्यालय में आमंत्रित कर सौंप दिया गया।

### उप-कानूनों में संशोधन का कार्यान्वयन

(क) वार्षिक आम सभा में अनुमोदन किये हुए निम्नलिखित संशोधनों को सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 नवंबर 2020 से लागू किया गया था।

वह उप-कानूनी संशोधन इस प्रकार है—

1. सेवानिवृत्त हितलाभ योजना : जिन सदस्यों ने अपनी सदस्यता के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनकी अधिवर्षिता पर प्रत्येक को रु. 5001/- का नकद उपहार को गत वित्तीय वर्ष के द रमियान रु. 7001/- किया गया है।
2. मृत्यु राहत राशि : मृत्यु राहत राशि को रु. 32000/- से बढ़ा कर रु. 35000/- प्रति सदस्य किया गया है।
3. आपातकालीन ऋण पात्रता : आपातकालीन ऋण के लिए वेतन पर्ची अनिवार्य कर दिया है।



(ख) इस कोरोना, कोविड-19 महामारी के काल /समय में सदस्यों की हित को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारिणी समिति ने विशेष बैठक में निम्नलिखित उप-कानूनों में संशोधन करके रजिस्ट्रार की अनुमति से दिनांक 5 जनवरी 2021 से लागू किया।

1. साधारण ऋण पात्रता : ऋण की पात्रता रु. 50000/- से बढ़ाकर रु. 100000/- प्रति वर्ष, अथवा अधिकतम सीमा रु. 300000/-, जो भी कम हो, कर दिया।
2. विशेष ऋण पात्रता : विशेष ऋण सीमा रु. 1000000/- से बढ़ाकर रु. 1200000/- कर दिया है। ऋण की पात्रता 6 साल की सदस्यता पूर्ण होने तक रु. 100000/- प्रति वर्ष, 6 साल पूर्ण होने के बाद मूल वेतन का 26 गुना अथवा रु. 1200000/- जो भी कम हो, कर दिया है और अधिकतम किश्त 150 है।
3. विशेष ऋण पात्रता : ऋण की ब्याज दर को 9.75 % से 9.5 % किया है।
4. आपातकालीन ऋण पात्रता : ऋण की ब्याज दर को 9.5% से 9.25% किया है। बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रखी गयी है।

### प्रबंध समिति

वर्ष के दौरान प्रबंध समिति के सभी सदस्यों ने संस्था की दैनिक गतिविधियों में उत्साहजनक रूप से भाग लिया। समिति के सभी सदस्यों द्वारा सक्रिय सहभागिता एवं उत्साह संस्था की प्रगति के सूचक रही और वित्तीय वर्ष में अच्छी उन्नति की है।

### आभार

प्रबंध समिति की ओर से तथा मेरे स्वयं की ओर से निदेशक आरआरकेट, प्रशासन, लेखा, सिविल, विद्युत अनुभाग, अतिथि गृह और सुरक्षा अनुभाग को हमारे प्रयासों में उनके बहुमूल्य सहयोग हेतु आभार व्यक्त करती हूँ। मैं संस्था के सभी स्टाफ सदस्यों को उनके सहयोग, कार्य के प्रति समर्पण एवं उनके सराहनीय प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।





अंत में, मैं यह कहना चाहूँगी कि संस्था के सदस्यों के सक्रिय सहयोग एवं उनके विश्वास से ही हम संस्था को सुचारु रूप से चलाने में समर्थ हो सके एवं अपने कर्तव्यों का पालन कर पाये। मैं आशा करती हूँ कि वे निरंतर संस्था को और अधिक उँचाईयों तक ले जाने हेतु अपना सक्रिय सहयोग एवं सहायता प्रदान करते रहेंगे।

मैं सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि आज की इस कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद!



हस्ता/—  
(श्रीमती श्रायनर पेनुमाला)  
अध्यक्ष  
प्रबंध समिति की ओर से



## **24th ANNUAL REPORT**

Dear Members,

It is my privilege to welcome all of you for the 24th Annual General Body Meeting of our Society on behalf of the Managing Committee.

I have pleasure to present the Annual Working Reports along with profit and loss account and balance sheet for the co-operative year ended on 31st March 2021 and seeks your approval. I am glad to note that the progress of our Society during the year under report was tremendous and appreciable. The progress at a glance printed at last page of the report will give you a clear picture about how the Society has been progressing year after year.

### **Appropriation of Profit:**

During the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2021, the society has earned a net profit of Rs. 9320923/- adding last year's balance of Rs. 41523988/- , the society has earned profit of Rs. 50844911/- so far. The committee recommends the appropriation as under:

Reserve fund@25% of Rs. 12427897/- = Rs. 3106974/-

Dividend@25% on share capital 3357300/- = 839325/-

### **Meetings:**

- (a) Annual General Body Meeting: 23<sup>rd</sup> Annual General Body Meeting of the society was held on 28th October, 2020 at Society Office. Total 821 members had attended the meeting, which is the higher attendance than last year.
- (b) Managing Committee Meetings: During the financial year 42 weekly meetings and 11 special meetings were held. All the members extended their co-operation by participating in the meetings.



### Dividend and Interest on Subscription:

Taking into account the profit for the year, we recommend a dividend of 25% on their paid up shares and 12% interest on subscription for this year.

### Active membership:

During the year under report 57 new members were enrolled, while 52 ceased to be members on account of resignation, retirement and death. The active membership of the Society as on 31<sup>st</sup> March 2021 was 1391.

### Share Capital:

Paid up capital as on 31<sup>st</sup> March, 2021 is Rs. 3357300/-

### Statutory Reserve Fund:

The balance in the Statutory Reserve Fund as on 31<sup>st</sup> March, 2020 was Rs. 13847103/- . After adding amount of during the year under report appropriation of profit Rs. 3106974/- , plus Rs. 1450/- as admission fees, the balance as on 31<sup>st</sup> March, 2021 is Rs. 16955527/-

### Members Deposits:

As in the past years there was appreciable response from our members to our deposit schemes. Particulars as follows:

Opening balance as on 1 <sup>st</sup> April, 2020	Rs. 253834080/-
Received During the year	Rs. 252352168/-
Paid During the year	Rs. 204310455/-
Closing Balance as on 31 <sup>st</sup> March,2021	Rs. 307875793/

### Loans:

As in the past there was appreciable support to fulfill the requirement of the members through various types of Loans (Ordinary Loan, Special Loan, Emergency



Loan, Consumer Loan, COVID-19 and COVID-2). Particulars are as follows:

Opening Balance as on 1 <sup>st</sup> April, 2020	Rs. 318710843/-
Loan distributing during the year	Rs. 339395446/-
Loan recover during the year	Rs. 276686868/-
Closing balance as on 31 <sup>st</sup> March, 2021	Rs. 381419421/-

**Death relief:**

During the period under report, we have granted death relief of Rs. 30000/- to the legal nominee of 01 deceased member of our society. We convey out heartfelt condolences to the family of the deceased members.

**Member Welfare Fund:**

The following activities have been successfully implemented in the reporting year under this fund:

(a) Retirement benefit :

During the year under report, we have granted total Rs. 238042/- to 42 retired members, Rs. 7001/- each, who have completed 10 years of their membership with society.

(b) Students felicitation program:

Total 73 students who have scored more than 70% in 10<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> examinations, were felicitated in the student Felicitation program with certificates and cash prize. In view of the situation at the time of this Corona, Covid-19 pandemic, certificates and prize money were handed over to the parents /members at Society Office.

**Implementation of By-Laws amendment:**

- (a) After the approval of amendment by Annual General meeting, in view of the interest of the members, the following amendments were implemented w.e.f 1<sup>ST</sup> November 2020..



1. Retirement Benefit Scheme : Retirement Benefit Scheme the limit increased from Rs. 5001/- to 7001/-.
2. Death relief Fund: Increased the limit of financial help to family of deceased member from Rs. 32,000/- to RS. 35,000/-
3. Eligibility of Emergency Loan: Pay slip submission with loan form is made mandatory for Emergency Loan .
- (b) In view of the interest of the members at the time of this corona, COVID-19 pandemic, the managing committee amended the following amendments were implemented w.e.f 5<sup>th</sup> January 2021.
  1. Ordinary Loan Eligibility: Eligibility of the loan is increased from Rs. 50,000/- to Rs. 1,00,000/- per completed years of membership or Rs 3,00,000/- whichever is less. All other terms and conditions kept same.
  2. Special Loan Eligibility: Maximum limit of special loan in increased from Rs. 10,00,000/- to Rs. 12,00,000/- . Eligibility of the (a) up to 6 completed years of membership: Rs. 1,00,000/- per completed years of membership (b) After 6 completed years of membership 26 times of basic pay or Rs 12,00,000/- whichever is less. All other terms and conditions kept same.
  3. Special Loan Eligibility: Rate of interest on Special loan is reduced from 9.75% to 9.5%. All other terms and conditions kept same.
  4. Emergency Loan Eligibility : Rate of interest on special loan is reduced from 9.5% to 9.25%. All other terms & conditions kept same.

### **Managing Committee**

During the year all managing committee members have taken keen interest in Society's day to day activities vigorously.

During the financial year due to the enthusiastic participation of the executive committee members society has achieved good heights.



### Gratitude

On behalf of managing committee and on my own behalf I express sincere thanks to Director RRCAT, Administration, Accounts, Civil & Electrical Section, Guest House and Security for their valuable co-operation. I am also thankful to the staff members of the Society for their co-operation, dedication to the work and sincere efforts.

Finally, I shall be failing in my duties if I do not keep on record the active co-operation and faith bestowed by the members for the smooth functioning of the Society. I hope that the members of the Society will continue to co-operate and help us to lead the Society to achieve better goals.

I request the members to participate actively in today's proceedings and help us to conduct the meeting in smooth and pleasant manner.

Thanking you,

Sd/-  
**(Smt. Shryner Penumala)**  
President  
On behalf of Managing Committee



## नया सॉफ्टवेयर

माननीय सदस्यों,

संस्था की निरंतर प्रगति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि हमने पिछले वर्ष में उल्लेख किया है, कोरोना ने हमें अपने संस्था को ऑनलाइन बनाने की दिशा में अथक दृढ़ बना दिया है।

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, हमने लॉगिन-पासवर्ड निर्माण, सदस्य प्रोफाइल और अब तक जमा और अग्रिम की शेष राशि को अद्यतन करने की सुविधाओं को सफलतापूर्वक शामिल किया है। बल्कि एस.एम.एस. सुविधा शुरू करने के लिए टेलीमार्केटिंग के लिए पंजीकरण पूरा हो गया है। स्थापित दोनों सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण के अधीन है।

संस्था की सदस्यता में एक सदस्य का प्रवेश और सदस्यता के समापन तक, सभी लेनदेन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। लेखांकन और रिपोर्ट दोनों उद्देश्यों के लिए कार्यालय रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा रखने के लिए अनुकूलित है।

चूंकि सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग सिस्टम पर आधारित है, इसलिए सभी लेनदेन क्लोज आधार पर और वर्तमान दिन पर किए जायेंगे। सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध है।

सॉफ्टवेयर के पूर्ण कामकाज के लिए निम्नलिखित संशोधन अनिवार्य है।

### 1. सावधि जमा के विषय में :-

- क. परिपक्व सावधि जमा का स्वतः नवीनीकरण 01 नवंबर 2021 से प्रभावी होगा। इसके लिए परिपक्व सावधि जमा प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र संस्था की कार्यालय में जमा करना होगा।
- ख. 6 महीने, 1,2,3,4 और 5 साल की एफ.डी. का ऑटो रिन्यू क्रमशः 6 महीने, 1,2,3,4 और 5 साल के लिए किया जाएगा।
- ग. 6 महीने, 1,2,3,4 और 5 साल के लिए की गई किसी भी एफ.डी. की समयपूर्वता का भुगतान @ PMT ब्याज दर 5.5% जो पहले तीन महीने की अवधि के बाद, पूरे हुआ महीनों के लिए किया जाएगा।

### 2. आवर्ती जमा योजना :

- क. जब तक आवर्ती जमा कार्ड न गद्दीकरण या एफ.डी. में परिवर्तित करने के लिए जमा नहीं किया जाता है, तब तक आवर्ती जमा परिपक्व राशि सदस्य के सोसायटी बचत खाते में 0% ब्याज पर



स्थानांतरित कर दी जाएगी।

- ख. नकदीकरण के विषय में, राशि का भुगतान उस पर बिना किसी ब्याज के किया जाएगा।
- ग. एफ.डी. में परिवर्तित करने के विषय में, नई एफ.डी. विधिवत भरे हुए दस्तावेजों के साथ आर.डी. कार्ड जमा करने की तिथि से की जाएगी।
- घ. समयपूर्वता का भुगतान के विषय में, राशि का भुगतान @ PMT ब्याज दर 6.25% जो पहले तीन महीने की अवधि के बाद, पूरा हुआ महीनों के लिए किया जाएगा।

**3. ऑनलाइन भुगतान के विषय में :-**

- सभी लेन-देन केवल कार्यकारी घंटे के दौरान और कार्य दिवसों में ही किए जाएंगे।
  - शाम 5 बजे के बाद की ऑनलाइन भुगतान राशियों के केवल अगले कार्य दिवस पर समायोजित किया जाएगा।
1. ऋण चुकौती/आंशिक भुगतान के लिए ऑनलाइन भुगतान के विषय में।
- क. चूंकि ट्रांसफर की गई राशि शेष राशि से कम होने पर सॉफ्टवेयर किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दे सकता है। सदस्यों से अनुरोध है कि सोसायटी के खाते में स्थानांतरित करने से पहले समापन राशि की पुष्टि करें।
  - ख. यदि किसी दिन शाम 5 बजे के बाद राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, तो लेनदेन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा, इसलिए ऋण अगले कार्य दिवस पर ही बंद होगा।
2. सावधि जमा के लिए ऑनलाइन भुगतान के विषय में :-
- क. यदि किसी भी दिन शाम 5 बजे के बाद राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, तो लेन-देन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा और एफडी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर ही किया जाएगा।
- समय-समय पर किए गए किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना समय-समय पर दी जाएगी।  
एक बार फिर संस्था की उन्नति में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

सॉफ्टवेयर उप-समिति  
की ओर से





## New Software

Honorable members,

Thanks to all of you for actively participating in the continuous progress of the society. As we have mentioned in the last year, CORONA has made us more determined towards making our society online.

We are pleased to inform you that, we have successfully incorporated the features Login –password creation, member profile and updated the balances of deposits and advances till date. Registration for telemarketing to initiate bulk SMS facility is completed. Both the installed software's are functioning and are under observation and testing to meet all the requirements. Entry of a member into society membership and up to the closing of the membership, all the transactions are functioning satisfactorily. Accounting and reports are customized for both purposes keeping office record and audit.

As the software is based on core banking system, all the transactions can be done on Day close basis and on current day.

Members are requested to co-operate.

The following amendments are mandatory for full functioning of the software.

### **In case of Deposits:-**

#### **1. Fixed Deposit Saving Scheme:**

- a. Auto renew of the matured FDs will be effective from 01-Nov-2021 by submitting the FD certificate and duly completed documents in society office.
- b. Auto renew of FD's made for 6 months, 1,2,3,4 and 5 years will be renewed to 6 months, 1,2,3,4 and 5 years respectively.
- c. Prematurity of any FD made for 6 months, 1,2,3,4 or 5 years will be paid @ PMT Interest rate of 5.5% after the first 3 months, for the completed months.

#### **2. Recurring Deposit Scheme:**

- a. RD matured amount will be transferred to the member's society saving account @0% interest until the RD card is submitted for encashment or converting to FD.



- i. In case of encashment, the amount will be paid with no interest on it.
  - ii. In case of converting to FD, the new FD will be made from the date of submission of the RD card with duly completed documents.
- b. In case Pre-maturity, the amount will be paid @ PMT Interest rate of 6.25% after the first 3 months, for the completed months.

**3. In case of online payments:-**

- All the transactions will be done during working hours and on working days only.
  - Online transfer of amounts after 5pm on day will be adjusted only on the next working day.
1. In case-Online payment towards Loan repayment/part payments.
    - a. As the software cannot allow any transaction if the amount transferred is less than the balance. Members are requested to confirm the closing amounts before transferring to society account.
    - b. If the transfer of amount is made after 5pm on any day, the transaction will be done on next working day, hence the loan close will be on next working day only.
  2. In case- Online payment towards Fixed Deposit.
    - a. If the transfer of amount is made after 5pm on any day, the transaction will be done on next working day and the FD certificate will be made on the next working day only.

Any type of amendments done in between will be informed time to time.

Once again thanks for your co-operation towards the advancement of society.

**On behalf of  
Software Su-committee**



## Website Section (www.rrceccs.com)

Honorable members,

The society website is under customization stage. Member's data are being uploaded and are under observation to find and rectify any inadvertent errors. The website has following features-

### User profile

In user profile, a members can view following information

1. CCNO
2. Name of member
3. Membership No.
4. Membership Date
5. Member's Photo
6. Address
7. Bank A/C No.
8. Nominee name
9. Mobile No.

### Account balance

In this section, members will be able to see balances of his/her deposits and advances. In particular he/she will be able to see

1. All balances at a glance
2. Subscription balances as on date
3. FD/RD/PRAGATI balances as on date
4. OL/SL/CL/EL balances and sureties taken for the same as well as sureties given

### Account statement

In this, a member can retrieve his/her statement of account for subscription, deposits as well as advances for a user defined time period.



### Change password

A member can change his/her login password by using this option. He/she needs to enter his old password to change the password to a new one.

### Log out

A member upon completion of his/her queries may log out from the website by clicking on this option.




Photo: Actual screenshot of the login page of our society (For privacy, personal details are omitted)

Sd/-  
**(Vipin Dev)**  
Webmaster



## AUDIT REPORT

We have completed the Internal audit of the accounts for the financial year 2020-21 and enclose the Balance Sheet of **RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED, INDORE** as at 31<sup>st</sup> March 2021 and The Income & Expenditure Account for the year ended on that date: -

1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.
2. In our Opinion, proper books of accounts as required by the Madhya Pradesh State Co-Operative Society Act and Rules there under and Bye Laws of Society have been kept by the society so far as it appears from our examination of the books.
3. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account examined by us are in agreement with the books of Accounts.
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, give all the information required by the Madhya Pradesh State Co-Operative Society Act and Rules there under in the manner so required and give a true and fair view Subject to ANNEXURE NIL
  - A) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the assessee as at 31<sup>st</sup> March, 2021 and;
  - B) In the case of Income & Expenditure Account of the Income of the assessee for the year ended on that date.

For **ATUL OMPRAKASH & CO.**  
Chartered Accountants

Sd/-  
**(ATUL KUMAR KHANDELWAL)**  
PROPRIETOR  
M. No. 400977

PLACE: INDORE  
Dated: 12/10/2021

**RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD., INDORE  
BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH 2021**

PARTICULARS	SCH.No.	31.03.2021	31.03.2020
<b>I SOURCES OF FUNDS</b>			
<b>1 SHARE HOLDERS FUND :</b>			
A) SHARE CAPITAL	1	3357300.00	3442600.00
B) RESERVE & SURPLUS	2	19437215.00	16639941.00
<b>2 LOANS FUND/DEPOSITS</b>			
A) SUBSCRIPTION FROM MEMBERS	3	76717762.00	63461558.00
B) SUNDRY DEPOSIT FROM MEMBERS	4	231158031.00	190372522.00
<b>3 INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT</b>		50844911.00	41523988.00
<b>TOTAL</b>		<b>381515219.00</b>	<b>315440609.00</b>
<b>II APPLICATION OF FUNDS</b>			
<b>4 FIXED ASSETS</b>	<b>5</b>		
GROSS BLOCK		349896.00	393778.00
LESS: DEPRECIATION		88063.00	102582.00
<b>NET BLOCK</b>		<b>261833.00</b>	<b>291196.00</b>
<b>5 INVESTMENTS</b>	<b>6</b>		
FIXED DEPOSIT WITH BANK		0.00	0.00
<b>TOTAL(RS.)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES</b>			
A) CASH AND BANK BALANCES	7	2644085.00	2143776.00
B) LOANS AND ADVANCES	8	381509147.00	318755633.00
<b>TOTAL(RS.)</b>		<b>384153232.00</b>	<b>320899409.00</b>
LESS : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
A) CURRENT LIABILITIES	9	0.00	0.00
B) PROVISIONS	10	2899846.00	5749996.00
<b>NET CURRENT ASSETS</b>		<b>381253386.00</b>	<b>315149413.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>381515219.00</b>	<b>315440609.00</b>

Notes to Accounts  
Schedule Referred to above Forming  
Integral Part of Balance Sheet

Place : INDORE  
Date : 12.10.2021

As per report of even date attached  
For Atul Omprakash & Company  
Chartered Accountants

(Atul Kumar Khandelwal)  
Proprietor

**RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD., INDORE  
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021**

PARTICULARS	SCH.No.	Amount 31.03.2021	Amount 31.03.2020
<b>1. INCOME</b>			
INTEREST INCOME	11	33328295.00	32366123.00
OTHER INCOME	12	79412.00	12601.00
EXCESS PROVISIONS WRITTEN BACK	13	2900000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>36307707.00</b>	<b>32378724.00</b>
<b>2. EXPENDITURES</b>			
INTEREST EXPENSES	14	22196158.00	18381110.00
ESTABLISHMENT EXPENSES	15	1425589.00	809033.00
DEPRECIATION		88063.00	102582.00
PROVISIONS	16	170000.00	3032000.00
<b>TOTAL</b>		<b>23879810.00</b>	<b>22324725.00</b>
<b>INCOME &amp; EXPENDITURE BEFORE TAXATION</b>		<b>12427897.00</b>	<b>10053999.00</b>
PROVISION FOR RESERVE FUND		3106974.00	2513500.00
<b>INCOME &amp; EXPENDITURE AFTER APPROPRIATION</b>		<b>9320923.00</b>	<b>7540499.00</b>
ADD: BALANCE B/F FROM PREVIOUS YEAR		41523988.00	33983489.00
<b>BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET</b>		<b>50844911.00</b>	<b>41523988.00</b>

Notes to Accounts  
Schedule Referred to above Forming  
Integral Part of Balance Sheet

Place : INDORE  
Date : 12.10.2021

As per report of even date attached  
**For Atul Omprakash & Company**  
Chartered Accountants

(Atul Kumar Khandelwal)  
Proprietor



**RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD., INDORE**  
**SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET**  
**AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021**

PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2021	On 31.03.2020
<b>SCHEDULE: 1</b>				
<b>SHARE CAPITAL</b>				
AUTHORISED				
50000 EQUITY SHARE OF Rs 100/- EACH			5000000.00	5000000.00
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP				
33573 EQUITY SHARE OF Rs.100/- EACH			3357300.00	3442600.00
AS PER LAST BALANCE SHEET	3442600			
ADD: ISSUE DURING THE YEAR	43300			
LESS: PAYMENT DURING THE YEAR	128600			
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>3357300.00</b>	<b>3442600.00</b>
<b>SCHEDULE 2</b>				
<b>RESERVE &amp; SURPLUS</b>				
<b>A) RESERVE FUND</b>				
OPENING BALANCE	13847103.00		16955527.00	13847103.00
ADD: TRANSFER FROM P& L A/C	3106974.00			
ADD: ADMISSION FEE RECEIVED	1450.00			
DURING 20-21				
<b>B) DIVIDEND EQUILISATION FUND</b>				
OPENING BALANCE	1992838.00		1676688.00	1992838.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	750.00			
LESS: PAYMENT DURING THE YEAR 20-21	316900.00			
<b>C) DEATH RELIEF FUND</b>				
OPENING BALANCE	555000.00		555000.00	555000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	30000.00			
LESS: PAYMENT DURING THE YEAR 20-21	30000.00			
<b>D) ELECTION EXPENDITURE FUND</b>				
OPENING BALANCE	195000.00		200000.00	195000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	5000.00			
LESS: PAYMENT DURING THE YEAR 20-21	0.00			





PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2021	On 31.03.2020
<b>E) OFFICE DEVELOPMENT FUND</b>				
OPENING BALANCE	50000.00		50000.00	50000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	0.00			
LESS: PAYMENT DURING THE YEAR 20-21	0.00			
<b>TOTAL (RS.)</b>			<b>19437215.00</b>	<b>16639941.00</b>
<b>SCHEDULE 3</b>				
<b>SUBSCRIPTION FROM MEMBERS</b>				
OPENING BALANCE	63461558.00		76717762.00	63461558.00
ADD: RECEIVED DURING 20-21	15917055			
LESS: PAYMENT DURING 20-21	2660851			
<b>TOTAL (RS.)</b>			<b>76717762.00</b>	<b>63461558.00</b>
<b>SCHEDULE 4</b>				
<b>SUNDRY DEPOSIT FROM MEMBERS</b>				
FIXED DEPOSIT			207177196.00	168209955.00
RECURRING DEPOSIT			14803680.00	12120082.00
PRAGATI SCHEME			9019030.00	10042485.00
SURITY, SAVING & ADVANCED A/C			158125.00	0.00
<b>TOTAL (RS.)</b>			<b>231158031.00</b>	<b>190372522.00</b>
<b>SCHEDULE 5</b>				
<b>FIXED ASSETS</b>				
A) GROSS BLOCK			349896.00	393778.00
B) LESS: DEPRECIATION			88063.00	102582.00
<b>C) NET BLOCK</b>			<b>261833.00</b>	<b>291196.00</b>
<b>SCHEDULE 6</b>				
<b>INVESTMENTS</b>				
FIXED DEPOSIT WITH BANK			0.00	0.00
ADD: ADDITION DURING 20-21	33157060			
LESS: REALISED DURING 20-21	33157060			
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2021	On 31.03.2020
<b>SCHEDULE 7</b>				
<b>CASH &amp; BANK BALANCES</b>				
CASH IN HAND			37136.00	47783.00
INDORE PREMIER CO.-OP. BANK (SAVING A/C)			9775.00	6053.00
STATE BANK OF INDIA			2597174.00	2089940.00
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>2644085.00</b>	<b>2143776.00</b>
<b>SCHEDULE 8</b>				
<b>LOANS AND ADVANCES</b>				
ORDINARY LOANS			97374437.00	77859810.00
SPECIAL LOANS			196546425.00	146995956.00
EMERGENCY LOANS			8609268.00	7113499.00
CONSUMER LOANS			78829290.00	86741578.00
COVID LOANS			60001.00	0.00
TDS 2019-20			89726.00	44790.00
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>381509147.00</b>	<b>318755633.00</b>
<b>SCHEDULE 9</b>				
<b>CURRENT LIABILITIES</b>				
LOAN AGAINST FD FROM IPC BANK			0	0
LESS: PAYMENT MADE DURING 20-21			0	0
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SCHEDULE 10</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
FOR INTERNAL AUDIT FEES	81000		82300.00	81000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	20000			
LESS: PAYMENT	18700			
FOR SOFTWARE DEVELOPMENT	459250		459250.00	459250.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	0			
LESS: PAYMENT	0			
FOR OFFICE FURNITURE & MACHINERY	900000		0.00	900000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	0			
LESS: PROVISION WRITTEN BACK	900000			
FOR STATUTORY AUDIT FEES	266040		274590.00	266040.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	75000			
LESS: PAYMENT	66450			



PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2021	On 31.03.2020
FOR CO-OPERATIVE TRAINING	10000		50000.00	10000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	40000			
LESS: PAYMENT	0			
FOR INTEREST ON PRAGATI SCHEME	3433706		1433706.00	3433706.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	0			
LESS: PROVISION WRITTEN BACK	2000000			
FOR WELFARE ACTIVITIES	600000		600000.00	600000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 20-21	0			
LESS: PAYMENT	0			
<b>TOTAL (RS.)</b>			<b>2899846.00</b>	<b>5749996.00</b>
<b>SCHEDULE 11</b>				
<b>INTEREST INCOME</b>				
INTEREST INCOME FROM ORDINARY LOAN, SPECIAL LOAN, EMERGENCY LOAN, CONSUMER LOAN, COVID-19 AND COVID-21 LOAN			32212220.00	31812685.00
INTEREST INCOME FROM FIXED DEPOSIT			701996.00	408022.00
INTEREST INCOME FROM SAVING BANK			414079.00	145416.00
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>33328295.00</b>	<b>32366123.00</b>
<b>SCHEDULE 12</b>				
<b>OTHER INCOME</b>				
SALE OF FORMS			4839.00	2736.00
DUPLICATE PASS BOOK			230.00	330.00
MISC. RECEIPT			74343.00	0.00
INTEREST ON INCOME TAX REFUND			0.00	5916.00
DIVIDEND			0.00	3619.00
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>79412.00</b>	<b>12601.00</b>
<b>SCHEDULE 13</b>				
<b>EXCESS PROVISION WRITTEN BACK</b>				
OFFICE FURNITURE AND MACHINERY			900000.00	0.00
ELECTION EXPENDITURE FUND			2000000.00	0.00
<b>TOTAL(RS.)</b>			<b>2900000.00</b>	<b>0.00</b>



PARTICULARS	SCH.No.	On 31.03.2021	On 31.03.2020
<b>SCHEDULE 14</b>			
<b>INTEREST PAYMENT</b>			
INTEREST PAYMENT ON FIXED DEPOSIT RECURRING DEPOSIT AND SUBSCRIPTION		22196158.00	18381110.00
<b>TOTAL(RS.)</b>		<b>22196158.00</b>	<b>18381110.00</b>
<b>SCHEDULE 15</b>			
<b>ESTABLISHMENT EXPENSES</b>			
STATIONARY & PRINTING		3711.00	54086.00
OFFICE EXP.		188762.00	119020.00
STUDENT FELICITATION EXPENSES		45500.00	76640.00
SALARIES & ALLOWANCES		601097.00	402929.00
RETIREMENT BENEFIT SCHEME		238042.00	155031.00
BANK CHARGES		2140.00	1327.00
MISC. PAYMENTS		346337.00	1327.00
<b>TOTAL(RS.)</b>		<b>1425589.00</b>	<b>809033.00</b>
<b>SCHEDULE 16</b>			
<b>PROVISIONS</b>			
INTERNAL AUDIT FEES		20000.00	20000.00
AUDIT FEES (STATUTORY)		75000.00	120000.00
ELECTION EXPENDITURE		5000.00	100000.00
PROPOSED DIVIDEND		0.00	2000000.00
DEATH RELIEF FUND		30000.00	92000.00
DEPRECIATION		0.00	0.00
CO-OPERATIVE TRAINING		40000.00	0.00
INTEREST ON PRAGATI SCHEME		0.00	400000.00
SOFTWARE DEVELOPMENT		0.00	0.00
OFFICE FURNITURE & MACHINERY		0.00	300000.00
WELFARE ACTIVITIES		0.00	0.00
<b>TOTAL(RS.)</b>		<b>170000.00</b>	<b>3032000.00</b>

Notes to Accounts  
Schedule Referred to above Forming  
Integral Part of Balance Sheet

Place : INDORE  
Date : 12.10.2021

As per report of even date attached  
**For Atul Omprakash & Company**  
Chartered Accountants

(Atul Kumar Khandelwal)  
Proprietor

## बैंकर्स / Bankers

भारतीय स्टेट बैंक  
केट शाखा, पोस्ट-केट, इन्दौर-452103  
**STATE BANK OF INDIA**  
CAT Branch, P.O. CAT Indore-452 013

इन्दौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लि.  
अन्नपूर्णा शाखा, इन्दौर-452009  
**INDORE PREMIER CO-OPERATIVE BANK LTD.**  
Annapurna Branch, Indore-452 009  
728A, Sudama Nagar, Near Genesh Mandir, Indore